



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5]
No. 5]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2006/पौष 19, 1927
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2006/PAUSA 19, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2006

सं. 80 (आर ई-2005)/2004—09

विषय :— प्रशुल्क दर कोटा (टी आर क्यू) के तहत विभिन्न मर्दों के आयात की प्रक्रिया।

फा. सं. 01/89/180/0001/एएम04/पी सी-IA.—विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार, प्रक्रिया पुस्तक(खण्ड-1) में एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. पैरा 2.61 [सार्वजनिक सूचना सं० 13 (आर ई-2005)/2004—2009 दिनांक 27-5-2005 द्वारा शामिल] का उप-पैरा 3 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“ऊपर दिए अनुसार कोटा प्राप्त करने की इच्छुक सभी इकाइयों, प्रक्रिया पुस्तक के आयात निर्यात प्रपत्र में विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी जी एफ टी) उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 में निर्यात आयात सुविधा समिति (ई एफ सी) को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अपेक्षित/निर्धारित दस्तावेजों सहित पूर्ण रूप से भरे आवेदन-पत्र इस कार्यालय में कोटा वर्ष से पूर्व प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 मार्च को या इससे पूर्व प्राप्त होना चाहिए अर्थात् 2006-2007 के लिए प्रशुल्क दर कोटा (टी आर क्यू) के लिए आवेदन विदेश व्यापार महानिदेशालय में 1 मार्च, 2006 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए।”

2. पैरा 2.61 के उप-पैरा 7 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“विदेश व्यापार महानिदेशालय की निर्यात आयात सुविधा समिति (ई एफ सी), कोटा वर्ष से पूर्व प्रत्येक वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक आवेदकों के मध्य कोटे का मूल्यांकन करेगी और प्रस्तुत करेगी अर्थात् 2006-2007 के लिए ई एफ सी 31 मार्च, 2006 तक कोटा आशंकित करेगी।”

इसे लोकहित में जारी किया जाता है

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTOR GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 9th January, 2006

No. 80 (RE-2005)/2004—2009**Subject : Procedure for import of various items under Tariff Rate Quota (TRQ).**

R. No. 01/89/180/0001/AM04/PC/IA.—In exercise of powers conferred under Para 2.4 of Foreign Trade Policy, 2004—2009, the DGFT makes the following amendments in the Handbook of Procedures, Vol. I :—

1. Sub-Para 3 of Para 2.61 [incorporated vide Public Notice No. 13 (RE-2005)/2004—2009 dated 27-5-2005] will be replaced by the following :—

“All eligible entities desiring availment of the quota as mentioned above, may make application to Exim Facilitation Committee (EFC) in the Aayaat-Niryaat Form of the Handbook of Procedures in the office of Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Udyog Bhavan, New Delhi-110011. The completed application forms along with the required/prescribed documents must reach this office on or before 1st March of each financial year preceding to the year of the quota e. g. applications for TRQ for 2006-2007 must reach DGFT by 1st March, 2006.”

2. Sub-para 7 of Para 2.61 will be replaced by the following :—

“The Exim Facilitation Committee (EFC) in the DGFT will evaluate and allot the quota among the applicants by 31st March of each financial year preceding to the year of the quota e. g. For 2006-07, EFC will allot quota by 31st March, 2006.”

This issues in the Public interest.

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade
& ex-officio Addl. Secy.